



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 2 जून, 2022

ज्येष्ठ 12, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

निर्वाचन अनुभाग

संख्या 399/61-2022

लखनऊ, 2 जून, 2022

अधिसूचना

यतः उत्तर प्रदेश राज्य में, राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित राज्य की विधान परिषद के 13 (तेरह) सदस्यों के स्थान 06 जुलाई, 2022 को उनकी पदावधि समाप्त होने के कारण उनकी सेवानिवृत्ति होने पर रिक्त होने वाले हैं जिनका विवरण इस प्रकार है-

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	सेवानिवृत्ति होने की तारीख
1	अतर सिंह राव	06.07.2022
2	डॉ. कमलेश कुमार पाठक	
3	जगजीवन प्रसाद	
4	दिनेश चन्द्रा	
5	दीपक सिंह	
6	बलराम यादव	
7	केशव प्रसाद मौर्या	
8	भूपेन्द्र	
9	योगी आदित्यनाथ (दिनांक 22.03.2022 से रिक्त)	
10	रणविजय सिंह	
11	राम सुंदर	
12	शतरुद्र प्रकाश	
13	सुरेश कुमार कश्यप	

यतः इस प्रकार उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से द्विवार्षिक निर्वाचन कराया जाना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 16 के अनुसरण में, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल राज्य की विधान सभा के सदस्यों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए नियमों और आदेशों के अनुसार उक्त रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से राज्य की विधान परिषद के लिए तेरह सदस्य निर्वाचित कर दें।

आदेश से और राज्यपाल के नाम से,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 399/61-2022, dated June 2, 2022:

No. 399/61-2022
Dated Lucknow, June 2, 2022

WHEREAS, the seats of 13 (thirteen) members of the Legislative Council of the State of Uttar Pradesh, elected by the members of Legislative Assembly of the State are due to fall vacant on 06.07.2022 on retirement of those members, on the expiration of their term of office as detailed below :-

Sl. no.	Name of Member	Date of Retirement
1	Atar Singh Rao	06.07.2022
2	Dr. Kamlesh Kumar Pathak	
3	Jagjivan Prasad	
4	Dinesh Chandra	
5	Deepak Singh	
6	Balram Yadav	
7	Keshav Prasad Maurya	
8	Bhupendra	
9	Yogi Adityanath (Vacant w.e.f. 22.03.2022)	
10	Ranvijay Singh	
11	Ram Sunder	
12	Shatrudra Prakash	
13	Suresh Kumar Kashyap	

WHEREAS, a Biennial election has to be held for the purpose of filling the above vacancies so arising;

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of Section 16 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Uttar Pradesh is, hereby, pleased to call upon the Members of the Legislative Assembly of the State, to elect thirteen members to the Legislative Council of the State, for the purpose of filling the above said vacancies, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

By order and in the name of the Governor,

DURGA SHANKER MISHRA,

Chief Secretary.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,
ASHOKA ROAD,
NEW DELHI-110001

02nd June, 2022,
Dated: _____
Jyaistha 12, 1944 (Saka),

NOTIFICATIONS

No. 322/UP-LC/2022 (MLAs) (1) :- WHEREAS, the Governor of the State of Uttar Pradesh has, by notification issued under Section 16 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the official Gazette of the State on 02nd June, 2022 been pleased to call upon the members of the Legislative Assembly of the State, to elect thirteen members to the Legislative Council of the State: -

NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby –

(A) appoints, with respect to the said election –

- (a) the 09th June, 2022 (Thursday), as the last date for making nominations;
- (b) the 10th June, 2022 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 13th June, 2022 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 20th June, 2022 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 22nd June, 2022 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the State on the date specified above, for the election.

No. 322/UP-LC/2022 (MLAs) (2) :- In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Uttar Pradesh, hereby: –

- (i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officer, specified in column (2) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning officer in the performance of his functions;

in respect of the biennial election to the Legislative Council of the State of Uttar Pradesh, by the members of Legislative Assembly of the State, to be held in pursuance of the Governor's notification published in the official Gazette of the State on 02nd June, 2022: -

TABLE

Officer Designated as Returning Officer	Officer Appointed as Assistant Returning Officer
(1)	(2)
Sri. Brij Bhushan Dubey, Special Secretary, Legislative Assembly, Uttar Pradesh, Lucknow	Sri. Ajeet Kumar Sharma, Joint Secretary, Legislative Assembly, Uttar Pradesh, Lucknow

By order,
SUMAN KUMAR DAS,
Secretary to the
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

2 जून, 2022

दिनांक : _____
ज्येष्ठ 12, 1944 (शक)

अधिसूचनाएं

सं. 322/उ.प्र.-वि.प/2022(एम.एल.ए.)(1) :- यतः, उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

(1951 का 43) की धारा 16 के अधीन जारी और राज्य के शासकीय राजपत्र में 02 जून, 2022 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य की विधानसभा के सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे राज्य में विधान परिषद् के लिए तेरह सदस्य निर्वाचित कर दें

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

- (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख - 09 जून, 2022 (गुरुवार);
(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - 10 जून, 2022 (शुक्रवार);
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख - 13 जून, 2022 (सोमवार);
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा - 20 जून, 2022 (सोमवार); और
(ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा - 22 जून, 2022 (बुधवार); नियत करता है; और

(आ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि

आवश्यक हुआ तो उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

सं. 322/उ.प्र.-वि.प/2022(एम.एल.ए.) (2) :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा तारीख 02 जून, 2022 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित राज्यपाल की अधिसूचना के अनुसरण में राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषद् के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा-

(i) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और

(i i) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)
श्री बृज भूषण दुबे, विशेष सचिव, विधानसभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	श्री अजीत कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव, विधानसभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

आदेश से,
सुमन कुमार दास,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 82 राजपत्र-2022-(194)-588 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 7 सा0 निर्वाचन-2022-(195)-125 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।